

श्रेणी : I  
SERIES : I

Daman 5<sup>th</sup> September, 2014, 14 Bhadra 1936 (Saka)

सं. : 08  
No.

# सरकारी राजपत्र OFFICIAL GAZETTE



सत्यमेव जयते  
भारत सरकार  
Government of India

## संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. DIC/25(201)/2014-15/464  
UT Administration of Daman & Diu,  
Department of Industries,  
District Industries Centre,  
Moti Daman – 396 220.

Dated : 02/09/2014

### NOTIFICATION

The Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, which have been notified in the Gazette of India on 17/02/2003 by the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi are hereby republished in the Official Gazette of Daman & Diu

Sd/-  
( Seema Bawa )  
General Manager  
District Industries Centre,  
Daman.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

का.आ. 188(अ).-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 463 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 1989 के अधीन जारी किए गए जनरल सर्विस इलेक्ट्रिक लैम्पस ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश, 1989 को और उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं० सा.का.नि 83 (अ) तारीख 24 फरवरी, 1993 के अधीन जारी किए गए विद्युत तार, केबिल, साधित्र और उपसाधन ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश, 1993 को सिवाय उन बातों के विखण्डित करती है जो ऐसे विखण्डन के पूर्व उक्त आदेशों के अधीन की गई थी या जिनका करने से लोप किया गया था ।

[ सं. सं. ०(१)/२००३-सं.सं.सं. ]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 17th February, 2003

S.O.....(E)- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the General Service Electric Lamps (Quality Control)

1989 issued under Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Notification No. G.S.R. 463 (E) dated 24<sup>th</sup> April, 1989 and the Electrical Wires, Cables, Appliances and Accessories (Quality Control) Order, 1993 issued under Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Notification No. G.S.R. 83 (E) dated 24<sup>th</sup> February, 1993 with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done under the said Orders before such rescission.

[F. No. 6(9)/2001-LEI]

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

का.आ. 189(अ).- केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है

अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत, तार, केबिलों, साधित्र और संरक्षण युक्तियाँ और उपसाधन (कवालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 है।

(2) अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 से 7 तक के अंतर्गत आने वाली मदों के संबंध में, यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा। अनुसूची के क्रम संख्यांक 8 से 24 तक के अंतर्गत आने वाली मदों के संबंध में यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषण - इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है ;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से कोई ऐसा प्राधिकारी, जो भारत सरकार के किसी अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या कोई ऐसा अधिकारी जो किसी राज्य सरकार के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की पंक्ति से नीचे का न हो, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाए, अभिप्रेत है ;

- (ग) “ब्यूरो” से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है ;
- (घ) विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के संबंध में, “व्यवहारी” से कोई ऐसा व्यक्ति या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, किन्हीं ऐसे विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का, चाहे नकद अथवा आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवाने प्रतिफल के लिए क्रय करने, विक्रय करने, प्रदाय करने या वितरण करने का कारबार करता है,
- (ङ) “विद्युत तार, केबिल, साधित्र, संरक्षण युक्ति और उपसाधन” से अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मर्दे अभिप्रेत हैं ।
- (च) विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के संबंध में, “विनिर्माता” से ऐसा कोई व्यक्ति, कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है जो किन्हीं ऐसे विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का उत्पादन करता है, उन्हें बनाता है, उनका समुच्चय या विनिर्माण करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब भी है जो यह दावा करता है कि ऐसे विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का यथार्थति, ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा उत्पादन किया गया है, उन्हें बनाया गया है, उनका समुच्चय या विनिर्माण किया गया है ;
- (छ) “अनुसूची” से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ज) विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के संबंध में, “विनिर्दिष्ट मानक” से ऐसे मानक अभिप्रेत हैं जो अनुसूची के स्तंभ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हों, जो प्रवृत्त हो ;
- (झ) “राज्य सरकार” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ;

(ज) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में है।

3. विनिर्माण भंडारकरण, विक्रय और वितरण आदि के बारे में प्रतिषेध - (1) कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसे किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का, जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं और प्रमाणीकरण चिन्ह अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने पर मानक ब्यूरो चिन्ह नहीं रखते हैं, विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा ;

परन्तु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होगी, जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देश के अनुरूप हैं और ऐसा कोई विनिर्देश किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होगा।

(2) ऐसे मानकच्युत या दोषपूर्ण विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों या कच्ची सामग्री अथवा संघटकों को, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं, विनिर्माता द्वारा तीन मास के भीतर उपयोग न किए जाने सकने वाले रूप में विरूपित और रद्दी के रूप में टिकाने लगाया जाएगा।

(4) प्रमाणीकरण के लिए वाध्यता - (1) विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के लिए सभी विनिर्माता ब्यूरो को, इस आदेश के जारी होने के पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिन्ह के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए, यदि पहले से अभिप्राप्त न की गई हो तो, एक आवेदन करेंगे।

(2) मानक चिन्ह के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी अधिनियम और नियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(3) कोई व्यक्ति जो स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मद 8 से मद 14 तक में से किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का विनिर्माण करने की प्रस्थापना करता है, तो वह उसका नियमित उत्पादन, मानक चिन्ह के उपयोग के लिए ब्यूरो से विधिमान्य अनुज्ञप्ति करने के पश्चात् ही, प्रारम्भ करेगा।

(4) अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित एक या एक से अधिक विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के लिए किसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति या ब्यूरो द्वारा उसके रद्दकरण के परिणामस्वरूप समुचित प्राधिकारी को भी ब्यूरो द्वारा सूचित किया जाएगा ।

5. जानकारी भंगाने की शक्ति आदि - (1) समुचित प्राधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से -

(क) किसी व्यक्ति से, जो ऐसे किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के विनिर्माण, विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के विनिर्माण, विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे, अथवा

(ख) ऐसी किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों और अन्य विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के संघटकों का, जो ऐसे विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के विनिर्माण, विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए हों या उससे संबंधित या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हों, निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा,

(ग) किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी कर सकेगा और ऐसे किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का अभिग्रहण कर सकेगा जिसके संबंध में उक्त बात पर विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का कोई उल्लंघन किया गया है अथवा उक्त विद्युत तार, केबिल, साधित्र, संरक्षण युक्तियां और उपसाधन विनिर्दिष्ट मानक के नहीं हैं ।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के उपबन्ध, यावतशक्य, इस खण्ड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

6. नमूनों का परीक्षण - मानक चिन्ह रखने वाले किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के ऐसे नमूनों का, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा यह अभिनियमित करने के लिए हों कि वे विनिर्दिष्ट मानक के हैं, परीक्षण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ऐसी रीति से, जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की जाए, किया जाएगा।

7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को निदेश जारी करने की शक्तियां - समुचित प्राधिकारी, विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इस अधिनियम या इस आदेश के उपबंधों से संगत हों, जो इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

8. निदेशों का अनुपालन - प्रत्येक व्यक्ति, जो किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के विनिर्माण, विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, जिसको इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है, ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

9. जानकारी देने की बाध्यता - कोई विनिर्माता या व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से खण्ड 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी जानकारी को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके कब्जे या नियंत्रण में रखी गई किसी बही या दस्तावेज या किसी विद्युत तार, केबिल, साधित्र, संरक्षण युक्ति और उपसाधन को न तो छिपाएगा, न विकृत या विरूपित करेगा।

अनुसूची

(खण्ड 2 (ड) देखिए)

क्रम संख्या	मद	मानक
1	घरेलू और वैसे ही विद्युत साधित्रों की सुरक्षा-विद्युत निमज्जन जल टांक	(भा.मा): 302-2-201 (1992)
2✓	घरेलू और वैसे ही विद्युत साधित्रों की सुरक्षा-विद्युत इस्त्री	(भा.मा): 302-2-3 (1992)
3✓	घरेलू और वैसे ही विद्युत साधित्रों की सुरक्षा-विद्युत स्टोव	(भा.मा): 302-2-202 (1992)
4✓	घरेलू और वैसे ही विद्युत साधित्रों की सुरक्षा-विद्युत रेडिएटर	(भा.मा): 302-2-30 (1992)
5.	घरेलू और वैसे ही प्रयोजनों के लिए स्विचें	(भा.मा): 3854: 1988

6. घरेलू और वैसे ही प्रयोजनों के लिए 2 एम्पियर स्विचें (भा.मा): 4949: 1968
7. टंगस्टन फिलामेन्ट साधारण सर्विस लैम्प (भा.मा): 418
8. साधारण प्रदीपन सेवाओं के लिए स्व-धारा स्थिरक लैम्प भाग-1 सुरक्षा अपेक्षाएं (भा.मा): 15111 (भाग-1)
9. साधारण प्रदीपन सेवाओं के लिए स्वतः धारा स्थिरक लैम्प भाग-2 निष्पादन अपेक्षाएं (भा.मा): 15111 (भाग-2)
10. विद्युत उपसाधन घरेलू और वैसे ही संस्थापनों के लिए अतिविद्युत धारा संरक्षण के लिए परिपथ विच्छेदक (भा.मा): 8828
11. घरेलू और वैसे ही उपयोगों के लिए अवशिष्ट विद्युत धारा प्रचालित परिपथ विच्छेदक (भाग-1) आंतरिक अतिविद्युत धारा संरक्षण के बिना परिपथ विच्छेदक (आर.सी.सी.वी.) (भा.मा): 12640 (पी.टी.-1)
12. घरेलू और वैसे ही उपयोगों के लिए अवशिष्ट विद्युत धारा प्रचालित परिपथ विच्छेदक (भाग-2): आंतरिक अतिविद्युत धारा संरक्षण सहित परिपथ विच्छेदक (आर.सी.वी.ओ.) (भा.मा): 12640 (पी.टी.-2)
13. 1000 वोल्ट ए सी या 1500 वोल्ट डी सी (भाग-2) से अनधिक वोल्टता के लिए लघु वोल्टता फ्यूज प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए (भा.मा): 13703 (भाग-2)
14. उच्च वोल्टता फ्यूज (भाग-1) विद्युत धारा सीमन फ्यूज (भा.मा): 9385 (भाग-1)
15. उच्च वोल्टता फ्यूज (भाग-2): बहिष्करण समरूप फ्यूज (भा.मा): 9385 (भाग-2)
16. कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर (भाग-2) परिपथ विच्छेदक (भा.मा): 13947 (भाग-2)
17. कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर (भाग-3) स्विच डिस-कनेक्टर, स्विच, डिसकनेक्टर और फ्यूज संयोजन यूनिटें (भा.मा): 13947 (भाग-3)
18. कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर (भाग-4) सम्पर्कक और मोटर स्टार्टर (भा.मा): 13947 (भाग-4)
19. कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर विनिर्देश (भाग-5) नियंत्रण परिपथ युक्तियां तथा स्विचिंग अवयव (भा.मा): 13947 (भाग-5)
20. 100 वोल्टता तक या इसको सम्मिलित करके कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधी केबिलें भा.मा. 694
21. 1100 वोल्टता तक या इसको सम्मिलित करके कार्यकारी वोल्टता के लिए इलैस्टोमर रोधी केबिल (भाग-1) (भा.मा): 9968 (भाग-1)
22. ए सी वाट- घंटा मीटर मापी- वर्ग 0.5 और 2 (कि.वाट घंटा) भा.मा. 13010



- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 23. | ए सी स्थैतिक वाट घंटा मापी वर्ग 1 और 2 (कि. वाट घंटा)                                   | भा.मा. 13779 |
| 24. | ए सी स्थैतिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटा और वी ए आर- घंटा मापी वर्ग 0.2 एस और 0.5 एस | भा.मा. 14697 |

[ फ़. सं. 6(9)/2001-एलईआई ]  
एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 17th February, 2003

S.O. 189(E).— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement - (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003.  
  
(2) In respect of items covered under serial numbers 1 to 7 of the Schedule, this Order shall come into force with immediate effect. In respect of items covered under serial numbers 8 to 24 of the Schedule, this Order shall come into force after a period of six months from the date of publication in the Official Gazette.
2. Definitions - In this Order, unless the context otherwise requires -
  - (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
  - (b) "Appropriate Authority" means any officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State Government as may be appointed by the Central Government or the State Government by a notification published in the Official Gazette to implement the provisions of this Order;
  - (c) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;
  - (d) "dealer", in relation to Electrical Wires, Cables, Appliances, Protection Devices and Accessories, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family which, carries on, directly or otherwise,

the business of buying, selling, supplying or distributing any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

- (e) "electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories" mean the items specified in column (2) of the Schedule;
- (f) "manufacturer", in relation to electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family which produces, makes, assembles or manufactures any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family which claims such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family, as the case may be;
- (g) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order;
- (h) "Specified Standard" in relation to electrical wires, cables, appliances and protection devices and accessories means the standard as specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule which is in force.
- (i) "State Government" includes a Union Territory Administration also.
- (j) All other words and expressions used but not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition regarding manufacture, storage, sale and distribution etc;- (1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories, which do not conform to the Specified Standards and do not bear Standard Mark of the Bureau on obtaining certification marks licence:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories required for export, which conform to any specification required by the foreign buyer and such specification shall not in any case be less than the Specified Standard.

- (2) The sub-standard or defective electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories or raw-material or components, which do not conform to the Specified Standard shall be deformed by the manufacturer beyond use and disposed of as scrap within three months.
4. Obligation for Certification - (1) All manufacturers of electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark, within forty five days of the issue of this Order, if not already obtained.
- (2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made thereunder.
- (3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories any of the items 8 to 24 specified in column (2) of the Schedule shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau for the use of Standard Mark.
- ~~(4) Consequent to the expiry of any licence or cancellation thereof by the Bureau for one or more of the electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories mentioned in column (2) of the Schedule, the Appropriate Authority shall also be informed of the same by the Bureau.~~
5. Power to call for information, etc. - (1) The Appropriate Authority may, with a view to securing compliance with this Order
- (a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories or any components of any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories.

- (b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories or the components of any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories.
- (c) enter and search any premises and seize any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories are not of the Specified Standard; and

(2) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizures shall so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

6. Testing of samples - Samples of any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the Specified Standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.

7. Power to issue direction to manufactures and dealers or sellers -

The Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers and dealers or sellers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.

8. Compliance of directions - Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.

9. Obligation to furnish information - No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any electrical

wires, cables, appliances, protection devices and accessories kept by, or in the possession or control of, such person.

SCHEDULE  
(See clause 2 (e))

S.No. (1)	Item (2)	Standard (3)
1.	Safety of household and similar electrical appliances – Electrical immersion water heaters.	IS: 302-2-201 (1992)
2.	Safety of household and similar electrical appliances – Electric Iron.	IS: 302-2-3 (1992)
3.	Safety of household and similar electrical appliances – Electric stoves.	IS: 302-2-202 (1992)
4.	Safety of household and similar electrical appliances – Electric radiators.	IS: 302-2-30 (1992)
5.	Switches for domestic and similar purposes.	IS: 3854: 1988
6.	2 Amp switches for domestic and similar purposes.	IS: 4949: 1968
7.	Tungsten Filament General Services Lamps	IS 418
8.	Self ballasted lamps for general lighting services: Part 1 safety requirements.	IS 15111 (Pt.1)
9.	Self ballasted lamps for general lighting services: Part 2 Performance requirements.	IS 15111 (Pt.2)
10.	Electrical Accessories - Circuit Breakers for over current protection for household and similar installations	IS 8828

11. Residual current operated circuit breakers for household and similar uses (Pt.1) : Circuit breakers without Integral overcurrent protection (RCCBs) IS 12640 (Pt.1)
12. Residual current operated circuit breakers for household and similar uses - (Pt.2) : Circuit breakers with integral overcurrent protection (RCVOs) IS 12640 (Pt.2)
13. Low voltage fuses for voltages not exceeding 1000 V AC or 1500 V DC (Pt. 2) fuses for use by authorised persons IS 13703 (Pt.2)
14. High voltage fuses (Pt.1) : current limiting fuses IS 9385 (Pt.1)
15. High voltage fuses (Pt.2): expulsion similar fuses IS 9385 (Pt.2)
16. Low voltage switchgear & control gear- (Pt.2) circuit breakers IS 13947 (Pt.2)
17. Low voltage switchgear & control gear - (Pt.3) switches, disconnectors, switch disconnectors and fuse combination units IS 13947 (Pt.3)
18. Low voltage switchgear & control gear- (Pt.4) contactors and motor starters IS 13947 (Pt.4)
19. Low voltage switchgear & control gear- (Pt.5) control circuit devices & switching elements IS 13947 (Pt.5)
20. PVC insulated cables for working Voltages upto and including 1100 V IS 694

- |  |                |
|--|----------------|
| 21. Elastomer insulated cables (Pt.1) :<br>for working voltages upto and<br>including 1100 V | IS 9968 (Pt.1) |
| 22. AC Watt-hour meters, class 0.5, 1 & 2 (KWH)  | IS 13010       |
| 23. AC static watt-hour meters, class 1 & 2 (KWH)  | IS 13779       |
| 24. AC static transformer operated watt-hour<br>and VAR - hour meters, class 0.2S & 0.5S     | IS 14697       |

[F. No. 6(9)/2001-LEI]  
S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

आदेश  
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

का.आ. 190(अ).-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 641 (अ) तारीख 19 जुलाई, 1995 के अधीन जारी किए गए सीमेन्ट ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश, 1955 को तुरन्त प्रभाव से, सिवाय उन बातों के विखण्डित करती है, जो ऐसे विखण्डन के पूर्व उक्त आदेशों के अधीन की गई थीं या जिनका करने से लोप किया गया था ।

[फा. सं. 13(2)/2000-सीमेंट II]  
एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

ORDER  
New Delhi, the 17th February, 2003

S.O.190(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Cement (Quality Control) Order, 1955, issued under Ministry of Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) Notification No.641(E) dated 19<sup>th</sup> July, 1995 with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done under the Order before such rescission.

[F. No. 13(2)/2000-Cem. II]  
S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

का.आ. 191(अ).- केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 है ।  
(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2. परिभाषाएं-- इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है ;
  - (ख) "समुचित प्राधिकारी" से कोई ऐसा प्राधिकारी, जो भारत सरकार के किसी अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या कोई ऐसा अधिकारी जो किसी राज्य सरकार के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की पंक्ति से नीचे का न हो, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाए, अभिप्रेत है ;
  - (ग) "ब्यूरो" से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है ;
  - (घ) "सीमेंट" से भारत में विनिर्मित या विक्रीत सीमेंट की कोई किस्म अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत स्फोट भट्टी धातुमल सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, त्वरित दृढीकारी पोर्टलैंड सीमेंट, सफेद पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट,



सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, निम्नताप पोर्टलैंड सीमेंट, उच्च प्रबलता सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, रेल स्लीपर्स, विनिर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, चिनाई सीमेंट, आयल वेल सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट या सीमेंट की कोई अन्य किस्म सम्मिलित है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस आदेश के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे ;

- (ड) सीमेंट के संबंध में, "व्यवहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा सीमेंट का, चाहे नकद अथवा आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय करने, विक्रय करने, प्रदाय करने या वितरण करने का कारख़ार करता है ;
- (च) सीमेंट के संबंध में "विनिर्माता" से ऐसा कोई व्यक्ति, कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो सीमेंट का उत्पादन करता है, उसे बनाता है, या उसका विनिर्माण करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब भी है, जो यह दावा करता है कि ऐसी सीमेंट का, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा उत्पादन किया गया है, उन्हें बनाया गया है, उनका अनुद्घय या विनिर्माण किया गया है ;
- (छ) "विनिर्दिष्ट मानक" से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित सीमेंट का भारतीय मानक विनिर्देश अभिप्रेत है ;
- (ज) "राज्य सरकार" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ;
- (झ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. विनिर्माण, विक्रय और वितरण, आदि के बारे में प्रतिषेध-- (1) कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से सीमेंट का, जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है और जिस पर मानक ब्यूरो चिह्न नहीं है, विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार कोई आवेदन किए जाने पर, किसी व्यक्ति को, मानक चिह्न के बिना, एक सौ पचास दिन से अनधिक की अवधि के लिए सीमेंट का विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडार, विक्रय या वितरण करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नियमित मानक चिह्न की मंजूरी इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों के पास लंबित है :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार कोई आवेदन किए जाने पर, मानक चिह्न से छूट दे सकेगी, यदि यह समाधान हो जाता है कि विनिर्मित और भेजा गया सीमेंट निर्यात के प्रयोजन के लिए और विदेशी मानकों के अनुसार या क्रेता के विनिर्देशों के अनुसार है और भारतीय मानकों की तत्समान अपेक्षाओं के समान नहीं है ।

(2) वह सीमेंट जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है, उसे एक मास के भीतर तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा ।

4. प्रमाणीकरण के लिए बाध्यता- (1) सीमेंट के विनिर्माता ब्यूरो को, इस आदेश के जारी होने के पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए, यदि पहले से अभिप्राप्त न की गई हो तो, एक आवेदन करेंगे ;

(2) मानक चिह्न के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगी ;

- (3) जब कोई व्यक्ति जो स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से सीमेंट का विनिर्माण करने की प्रस्थापना करता है, तो वह उसका उत्पादन आरंभ होने से पूर्व ब्यूरो का आवेदन करेगा ;
- (4) एक या एक से अधिक सीमेंट के विनिर्माण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति या ब्यूरो द्वारा किसी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित जानकारी ब्यूरो द्वारा तुरन्त समुचित प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।
5. जानकारी, आदि मांगने की शक्ति-- इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से समुचित प्राधिकारी-
- (1) किसी व्यक्ति से, जो सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किन्हीं विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे सीमेंट के नमूने प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ;
- (2) ऐसी किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों और अन्य सीमेंट का, जो ऐसी सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए हों या उससे संबंधित या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हों, निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा ;
- (3) किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी कर सकेगा और उस सीमेंट का अभिग्रहण कर सकेगा जिनके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का कोई उल्लंघन किया गया है अथवा उक्त सीमेंट विहित मानक के नहीं हैं ; और

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

के उपबंध, यावत्शक्य, इस खंड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू  
होंगे।

6. नमूनों का परीक्षण- मानक चिह्न रखने वाले सीमेंट के ऐसे नमूनों का, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए लिए गए हों कि वे विनिर्दिष्ट मानक के हैं, परीक्षण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ऐसी रीति से, जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की जाए, किया जाएगा।

7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को निदेश जारी करने की शक्तियां-समुचित प्राधिकारी, विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इस अधिनियम या इस आदेश के उपबंधों से संगत हो, जो इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

8. निदेशों का अनुपालन- प्रत्येक व्यक्ति, जो किन्ही सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, जिसको इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है, ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

9. सूचना देने की बाध्यता-कोई विनिर्माता या व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से खंड 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक कोई जानकारी मांगे जाने पर उसे देने से इंकार नहीं करेगा या उसके द्वारा रखे गए या उससे संबंधित या उसके नियंत्रण के अधीन किन्हीं बहियों या दस्तावेजों या किन्ही सीमेंट को न तो छिपाएगा, न नष्ट करेगा, न ही विकृत करेगा या उन्हें विरुपित नहीं करेगा।

[फा. सं. 13(2)/2000-सीमेंट II]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

**ORDER**  
New Delhi, the 17th February, 2003

S.O. 191(E).— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short Title and commencement:- (1) This Order may be called the Cement (Quality Control) Order, 2003.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
  
2. Definitions:- In this Order, unless the context otherwise requires: -
  - (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
  - (b) "Appropriate Authority" means an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State Government as may be appointed by the Central Government or the State Government by a notification published in the Official Gazette to implement the provisions of this Order;
  - (c) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;
  - (d) "Cement" means any variety of cement manufactured or sold in India and includes blast furnace slag cement, portland pozzolana cement, rapid hardening portland cement, white portland cement, hydrophobic portland cement, ordinary portland cement, low heat portland cement, high strength

ordinary portland cement, cement used for the manufacture of railway sleepers, masonry cement, oil well cement, super sulphated cement or any other variety of cement which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify for the purposes of this Order:

- (e) "dealer" in relation to cement, means a person who, or a firm or Hindu Undivided Family which, carries on directly or otherwise the business of buying, selling, supplying or distributing cement, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration of other valuable consideration;
- (f) "manufacturer" in relation to cement, means a person who or a firm or Hindu Undivided Family which, produces, makes or manufactures cement and includes a person who, or a firm or Hindu Undivided Family which, claims such cement to be produced, made or manufactured by any such person or firm or Hindu Undivided Family, as the case may be;
- (g) "Specified Standard" means the Indian Standard Specification of cement prescribed by the Bureau of Indian Standards;
- (h) "State Government", includes a Union Territory Administration also;
- (i) All other words and expressions used but not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition regarding manufacture, sale, distribution etc:- (1) No person shall himself or by any person on his behalf, manufacture or store for sale, sell or distribute cement which does not conform to the Specified Standard and which do not bear the Standard Mark:

Provided that the Central Government may, on an application made, permit any person to manufacture or store for sale, or sell or distribute cement without Standard Mark for a period of not exceeding one hundred and fifty days, if it is satisfied that the grant of regular Standard Mark is pending with the authorities under the Act:

Provided further that the Central Government may, on an application made, grant exemption from Standard Mark, if it is satisfied that the cement manufactured and dispatched is for export purpose and is as per the Overseas Standards or as per Buyer's Specifications and do not coincide with the corresponding requirements of the Indian Standards.

- (2) The cement which do not conform to the Specified Standard shall be destroyed immediately within a month.
4. Obligation for Certification:- (1) the manufacturer of cement shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark within forty five days of the issue of this Order, if not already obtained.
- (2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.
  - (3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture cement, he shall make an application to the Bureau before the commencement of production.
  - (4) Information relating to expiry or cancellation of any licence or rejection of application for grant of licence by the Bureau for manufacture of one or more of the cement shall be sent to the Appropriate Authority immediately by the Bureau.
5. Power to call for information etc. :- The Appropriate Authority may, with a view to secure compliance with this Order:-
- (1) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of cement to give such information as it deems necessary in relation to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of cement for the implementation of this Order or require any such person to furnish to it samples of such cement;
  - (2) inspect or cause to be inspected any books or other documents or cement kept by or belonging to or in possession or under the control of any

person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of such cement;

- (3) enter and search any premises and seize cement in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been made, or the said cement is not of the prescribed standard; and
- (4) the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, applied to searches and seizures under this clause.

6. Testing of samples:- Samples of cement bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the Specified Standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.

7. Power to issue direction to manufacturers and dealers or sellers:- the Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers and dealers or sellers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.

8. Compliance of directions:- Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any cement, to whom any direction is issued under this Order shall comply with such directions.

9. Obligation to furnish information:- No manufacturers or dealers shall, with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any cement kept by, or in the possession or control of such person.



SERIES - I No. : 08
DATED : 5 <sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2014.

No. DMHS/Clinical Est./2010-11/F.222/ 2075  
Administration of Daman & Diu,  
Directorate of Medical & Health Services,  
Community Health Centre,  
Moti Daman - 396 220.

No. DMHS/Clinical Est./2010-11/F.222/ 2075

Dated: 04/09/2014.

## NOTIFICATION

### Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2014

In exercise of the powers conferred by Section 54 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 of the Central Government, the Administrator of UT of Daman & Diu is pleased to make the following rules namely:

(1) **Short Title & Commencement:**

- (i). These rules may be called the Daman & Diu Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2014.
- (ii). These rules extend to the whole of the UT of Daman & Diu and are applicable to all the Clinical Establishments in the UT of Daman & Diu.
- (iii). These Rules shall come into force on the date of their publication in the Daman & Diu Official Gazette.
- (iv). The Rules shall be applicable to various categories of Clinical Establishments in a phased manner, as may be notified from time to time.

(2) **Definition:**

In this Act, unless the context otherwise requires:-

- (a) 'Act' means the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010.
- (b) 'Rules' means the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2014.
- (c) "Authority" means the district registering authority set up under section 10;
- (d) "Certificate" means certificate of registration issued under section 30;
- (e) "Clinical Establishment" means-
  - (i) a hospital, maternity home, nursing home, dispensary, clinic, sanatorium or an institution by whatever name called that offers services, facilities requiring diagnosis, treatment or care for illness, injury deformity, abnormality or pregnancy in an recognized system of medicine established.

- (ii) a place established as an independent entity of part of an establishment referred to in sub- clause (i) in connection with the diagnosis or treatment of diseases where pathological, bacteriological genetic radiological chemical biological investigations or other diagnostic or investigative services with the aid of laboratory or other medical equipment are usually carried on, established and administered or maintained by any person or body of persons, whether incorporated or not,

And shall include a clinical establishment owned, controlled or managed by-

- (1) the Government or a department of the Government;
- (2) a trust, whether public or private;
- (3) a corporation (including a society) registered under a Central, Provincial or UT Act, whether or not owned by the Government;
- (4) a local authority; and
- (5) a single doctor,

But does not include the clinical establishment owned controlled or managed by the Armed Forces constituted under the Army Act, 1950, the Air Force Act 1950 and the Navy Act 1957. .

- (f) **“Emergency Medical Condition”** means a medical condition manifesting itself by acute symptoms of sufficient severity (including severe pain ) of such a nature that the absence of immediate medical attention could reasonably be expected to result in-
- (i) Placing the health of the individual or with respect to a pregnant women the health of the woman or her unborn child, in serious jeopardy; or
  - (ii) Serious impairment to bodily functions ;
  - (iii) Serious dysfunction of any organ or part of a body.
- (g) **“National Council”** means the National Council for clinical establishments established under section 3;
- (h) **“Notification”** means a notification published in the Official Gazette;
- (i) **“Prescribed”** means prescribed by rules made under this Act by the Central Government or as the case may be, the UT Administration;
- (j) **“Recognized”** system of medicine “means Allopathy, Yoga, Naturopathy, Ayurveda, Homoeopathy, Siddha and Unani System of medicines or any other system of medicine as may be recognized by the Central Government;
- (k) **“Register”** means the register maintained by the authority, UT Administration and the Central Government under sections 37, 38 and 39 respectively of this Act containing the number of clinical establishment registered;

- (l) "**Registration**" means to register under section 11 and the expression registration or registered shall be construed accordingly;
- (m) "**Schedule**" means the Schedule appended to this Act;
- (n) "**Standards**" means the conditions that the Central Government may prescribe under section 12 for the registration of clinical establishment;
- (o) "**UT Administration**", in relation to a Union territory, means the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution and
- (p) "**To stabilize (with its grammatical variations and cognate expressions)**" means with respect to an emergency medical condition specified in clause (d) to provide such medical treatment of the condition as may be necessary to assure, within reasonable medical probability, that no material deterioration of the condition is likely to result from or occur during the transfer of the individual from a clinical establishment.

**(3) Establishment of U.T Council for Clinical Establishments**

The U.T Administration shall by notification constitute a Union Territory Council for clinical establishments.

**(4) Functions of the Union Territory Council:**

The Union Territory Council shall perform the following functions, namely:—

- a. compiling and updating the Union Territory Registers of clinical establishment;
- b. sending quarterly returns for updating the National Register (including in the digital format);
- c. representing the Union Territory in the National Council;
- d. hearing of appeals against the orders of the authority;
- e. publication on annual basis a report on the state of implementation of standards in the Union Territory.
- f. monitor the implementation of the provisions of the Act and rules in the U.T.
- g. recommend to the Government, any modifications required in the rules in accordance with changes in technology or social conditions;
- h. perform any other function as may be outlined by the National council of Clinical Establishments;
- i. Any other function as may be prescribed by the Central Government.

**(5) Disqualified as appointment as member:**

A person shall be disqualified for being appointed as a member of the UT Council if he –

- a) Has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the UT Administration, involves moral turpitude or
- b) Is an undischarged insolvent; or

- c) Is of unsound mind and stands so declared by a competent court or
- d) Has been removed or dismissed from the service of the Government or corporation owned or controlled by the Government or
- e) Has in the opinion of the UT Administration such financial or other interest in the Council as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member.

**(6) Conduct of Business:**

Every meeting of the Union Territory Council shall be presided over by the Chairperson.

**(7) Time & Place for Meetings of the Union Territory Council:**

The meetings of the Union Territory Council shall ordinarily be held at Union Territory Capital on such dates as may be fixed by the Council. The Union Territory Council shall meet every six months.

**(8) Notice of Meeting:**

Notice of every meeting other than a special meeting shall be dispatched by the Member Secretary of District Registering Authority to each member of the Council not less than 15 days before the date of the meeting.

**(9) Quorum, Call for Meeting, Minutes of Meetings:**

- i. One - third of the total number of members of the Union Territory Council shall form a quorum and all actions of the Council shall be decided by a majority of the members present and voting.
- ii. The notice and agenda of every such meeting of the Union Territory Council shall ordinarily be given 15 days before the meeting by the Member Secretary of the Council.
- iii. The proceedings of the meetings of the UT Council shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated after confirmation by the signature of the Chairperson. The decisions taken therein shall be given effect to.
- iv. A copy of the minutes of each meeting of the Union Territory Council shall be submitted to the Chairperson within 5 - 7 days of the meeting and after having been approved by him/her shall be sent to each member of the Council within 15 days of the meeting. If no objection to their correctness is received within 10 days of their dispatch, any decisions therein shall be given effect to, provided that the Chairperson may, where in his opinion it is necessary or expedient so to do, direct that action be taken on the decision of the meeting.

**(10) Registration and Filling of Casual Vacancies:**

- i. A member desiring to resign his seat on the Union Territory Council shall send his resignation in writing to the Chairperson and every such resignation shall take effect

from the date mentioned by him in this behalf or in case no such date is mentioned, from the date of the receipt of his letter by the Chairperson after confirmation from the member concerned about his resignation.

- ii. When a casual vacancy occurs by reason of death, resignation or otherwise of a member, a report shall be made forthwith by the Chairperson to the UT Administration which shall take steps to have the vacancies filled by nomination or election, as the case may be.

**(11) Finance and Accounts:**

The Accounts of the Council shall be audited annually by a Chartered Accountant, who is to be appointed with the prior approval of the Controller and Auditor General of India. Any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Council.

**(12) The District Registering Authority- Establishment of District Registering Authority:**

The U.T Administration shall, by notification under Section 10 of the Act and in accordance with the rules framed by Central Government in this behalf set up an authority to be called the District Registering Authority for each district for registration of clinical establishments.

**(13) Functions of the District Registering Authority:**

- a. to grant, renew, suspend or cancel registration of any clinical establishments;
- b. to enforce compliance of the provisions and rules of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010;
- c. to investigate complaints of breach of the provisions of this Act or the rules made there under and take immediate action;
- d. to prepare and submit on quarterly basis report containing details of related to number and nature of provisional and permanent registration certificates issued; included those cancelled, suspended or rejected to the Union Territory Councils;
- e. to report to the Union Territory Council on a quarterly basis on action taken against non registered clinical establishments running operation in violation of the Act;
- f. perform any other function as may be prescribed by the central government and or the U.T Administration from time to time.

**(14) Powers of the District Authority:**

The District Authority shall, for the purposes of discharging its function under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters namely:

- a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath.
- b) Requiring the discovery and production of any document or other electronic records or other material objective producible as evidence.
- c) Receiving evidence on affidavits
- d) Requisitioning of any public record
- e) Issuing commission for the examination of witnesses or documents.
- f) Reviewing its decisions, directions and others
- g) Dismissing an application for default or deciding it exparte.
- h) Any other matter which may be prescribed.

**(15) Time and Place of and Preparation of Business for Meetings of the District Registering Authority:**

The meetings of the District Registering Authority shall be held at least once in a month at a stipulated date and time

**(16) Conduct of Business:**

Every meeting of the District Registering Authority shall be presided over by the Chairperson.

**(17) Notice of Meeting:**

Notice of every meeting other than a special meeting shall be dispatched by the Convener to each member not less than 15 days before the date of the meeting.

**(18) Quorum, Minutes:**

- i. One - third of the total number of members of the District Registering Authority shall form a quorum and all actions of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting.
- ii. The proceedings of the meetings of the District Registering Authority shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated after confirmation by the signature of the Chairperson. The decision taken therein shall be given effect to subject to their being consistent with the provisions of the Act.
- iii. The proceeding of annual meeting of District Registering Authority be submitted to the UT Council

**(19) Resignation and filling of casual vacancies:**

If a casual-vacancy occurs in the office of any other members, whether by reason of death, resignation or inability to discharge, functions owing to illness or any other incapacity, such vacancy shall be filled by the District Collector by making a fresh appointment and the member so appointed shall hold office for the remaining term of office of the person in whose place she / he is so appointed.

**(20) Registration of Clinical Establishments - Application for Registration:**

- i. The applicant shall apply to the District Registration Authority for provisional registration, either in person, or by post or through web based online facility with the necessary information as per **Annexure - 1** Form under Section 14 (1) and 14 (3) of the Act.
- ii. Once the process for permanent registration is started by U.T, the clinical establishment shall apply to the District Registration Authority for permanent registration, in person, or by post or through web based online facility with the necessary information filled and with evidence of having met the requirements of minimum standards and personnel for different categories of Clinical Establishments in a form and format that may be prescribed by the National Council /UT Administration under Section 24 and 25 of the Act.
- iii. If an establishment is offering services in more than one category as specified under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules (Central Government), 2010, the establishment will need to apply for a separate provisional or permanent registration for each category of establishment under Section 14 (I) and Section 30 of the Act. However, if a laboratory or diagnostic center is a part of an establishment providing outpatient / inpatient care, no separate registration will be required.

**(21) Acknowledgement of Application:**

The Registration Authority, or any person in his office authorized in this behalf, shall, acknowledge receipt of the application for permanent registration, in the acknowledgment slip provided as per **Annexure - 2** immediately, if delivered at the office of the authority, or not later than the next working day if received by post and by online acknowledgement to be generated automatically by the system.

**(22) Grant of Registration:**

The authority shall not undertake any enquiry prior to the grant of provisional registration and shall within a period of ten days from the date of receipt of such application, grant to the applicant a certificate of provisional registration containing particulars and information as per **Annexure - 3** either by post or electronically under Section 15; read with Section 17 of the Act.

**(23) Certificate of registration:**

- i. The District Registering Authority shall grant the applicant a certificate of permanent registration as per **Annexure - 4** either by post or electronically after satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements and criteria, including provision of minimum standards and personnel required to run the clinical establishment under Sections 28 and 30 of the Act.
- ii. In case of permanent registration, under Section 29 of the Act, the authority shall pass an order within 1/2 month –
  - (a) allowing the application for permanent registration; or
  - (b) disallowing the application:  
Provided that the authority shall record its justifications and reasons, if it disallows an application, for permanent registration.

**(24) Fees to be charged**

- i. The various fees charged for provisional and permanent registration, renewal, late application, duplicate certificate, change of ownership, management or name of establishment is prescribed in **Annexure - 5** under Section 14 (I) read with Section 19, Section 20 (2), Section 22; Section 24, Section 35 of the Act.
- ii. Clinical establishments owned, controlled and managed by the government (Central, UT or local authority) or department of government, shall be exempt from payment of fees for registration.
- iii. The fees prescribed for various categories of clinical establishments may be revised by the UT Council through a notification issued by the UT Administration.
- iv. The fee shall be paid by a demand draft drawn / online transaction in favour of the Registration Authority concerned as specified under Section 14 (I) and Section 30 of the Act.

*The fees collected by the District Registration Authority concerned for registration of the Clinical Establishments shall be deposited by the Authority concerned in a Nationalized bank account opened in the name of the official designation of the Registration Authority concerned and shall be utilized by the council and Authority for the activities connected with the implementation of the provisions of the Act and these rules as approved by the council.*

- The Accounts shall be maintained as per the Financial Code rules and shall be audited by engaging a qualified Chartered Accountant. The annual Audit reports shall be submitted to the concerned State Council.



- In the event of any change of ownership or management, the establishment shall intimate to the District Registration in writing within one month of such change along with the fee prescribed in **Annexure - 5** for issue of a revised certificate of Provisional or Permanent registration, as the case maybe, incorporating the changes and on surrendering the old certificate under Section 20 (2) and Section 30 of the Act..
- In the event of certificate of registration (Provisional or Permanent) being lost or destroyed, the owner shall apply to the District Registration Authority to issue a duplicate certificate upon payment of the fee prescribed under rule (b) Annexure 5 and the provisional certificate shall be marked "Duplicate" as per **Annexure - 9** under Section 19 and Section 30 of the Act.

**(25) Renewal of Registration:**

- i. The clinical establishment shall apply for renewal of provisional registration thirty days before the expiry of the validity of the certificate of provisional registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the authority shall allow for renewal of registration on payment of double of the registration fee (Provisional/Permanent) as prescribed in **Annexure - 5**.
- ii. The fee for renewal of registration shall be charged as per the rate notified by the UT Administration from time to time and the period after which a license is to be renewed shall also be prescribed by the UT Administration through an official notification.
- iii. The period after which the Clinical Establishments shall have to apply for renewal will be prescribed by the UT Administration through a notification.
- iv. For renewal of permanent registration, the clinical establishment shall apply three (3) months before expiry of the registration period of two (2) years. The renewal will be granted by the Authority within 3 months of receipt of the application failing which it will be deemed to have been renewed. If the clinical establishment does not apply within one month of expiry of registration period, the registration will be deemed to have been suspended.
- v. Under Section 30 (4) of the Act the clinical establishment shall apply for renewal of permanent registration six months before the expiry of the validity of the certificate of permanent registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the authority will allow for renewal of registration on payment of double of the registration fee (Provisional/Permanent) as prescribed in **Annexure - 5**.

(26) **Registers to be maintained, furnishing of returns and display of information,  
Registers to be maintained:**

- i. Every District Registration Authority shall within a period of two years from its establishment, compile, publish and maintain in digital format a register of Clinical Establishments registered by it and it shall enter the particulars of the certificate so issued in a register containing particulars as prescribed under Section 37 (1) (2) and Section 38 (1) (2) of the Act.
- ii. Every District Registration Authority including any other authority set up for the registration of clinical establishments under the law for the time being in force shall supply in digital format to the U.T Council of Clinical Establishments a copy of every entry made in the District register of clinical establishments for a particular month by the 15th day of the following month in keeping with Section 37 (2) of the Act.

(27) **Display of Information:**

- i. The District Registering Authority shall, within a period of forty-five days from the grant of provisional registration, mandatorily cause to be published in the public domain through two local dailies and on the website, which the District Registering Authority will launch, the name of the Clinical establishment, Address, Ownership, Name of Person in Charge, System of Medicine offered, Type and Nature of Services offered and details of the Medical Staff (Doctors, Nurses, etc.) as under Section 16 (2) of the Act **Annexure - 7**.
- ii. The UT council could make changes in the nature of information to be provided in the Public Domain through a notification, except in the case of the mandatory information to be provided under Section 16 (2) of the Act.
- iii. The District Registering Authority shall, cause to be published in the public domain through two local dailies and on the website, which the District Registering Authority will launch, the name of the Clinical establishment which have been granted permanent registration, Address, Ownership, Name of Person in Charge, System of Medicine offered, Type and Nature of Services offered, details of the Medical Staff (Doctors, Nurses, etc) and the details and information related to having complied with the minimum standards and personnel prescribed for the particular category of clinical establishment as under Section 26 of the Act.
- iv. The District Registration Authority shall cause to be displayed the above information in public domain for a period of 30 days for filing objections before granting permanent registration.
- v. If any person has any objection to the information published regarding the clinical establishment they shall give in writing the reasons and evidence of objection or non-compliance to the District Registration Authority. The District Registering Authority shall, within a period of 15 days cause to be published in the public domain the name of the Clinical Establishment whose (Provisional or Permanent) registration has expired as under Section 21 and Section 30 of the Act.

**(28) Information to be provided by Clinical Establishments:**

- i. The Clinical Establishments shall maintain medical records of patients treated by it and health information and statistics in respect of national programmes and furnish the same to the district authorities in form of three monthly reports. The minimum medical records to be maintained and nature of information to be provided by the Clinical Establishments are prescribed as per Section 12(1) (iii) of the Act.
- ii. Copies of all records and statistics shall be kept with the clinical establishment concerned for at least 3 years or in accordance with any other relevant act in force at the time under Section 12 (1) (iii) of the Act. All clinical establishments shall be responsible for submission of information and statistics in the time of emergency or disaster or epidemic situation.
- iii. The government may notify from time to time, the nature of information that needs to be furnished by the Clinical Establishments including other disease notified for this purpose along with the prescribed interval.
- iv. In addition to the specific provisions of the Clinical Establishments (Registration & Regulation) Act 2010, all establishments shall comply and maintain information and statistics in keeping with other applicable Acts and Rules which are in force in the country.

**(29) Power to Enter:**

- i. Entry and search of the clinical establishment can be done by the District Registering Authority or an officer or team duly authorized by it or subject to such general or special orders as may be made by the authority, subject to a unanimous decision by all members of the District Registration Authority for conduct of such entry and search.
- ii. Such entry and search of clinical establishments can be conducted if anyone is carrying on a clinical establishment without registration or does not adhere to the prescribed minimum standards or has reasonable cause to believe the Clinical Establishments is being used for purposes other than it is registered or contravenes any of the provisions of this Act & Rules, shall at all reasonable times enter and inspect any record, register, document, equipment and articles as deemed necessary under the provisions of Section 34 of the Act.
- iii. The inspection team shall normally intimate the establishment in writing about the date of visit. The team shall examine all portions of the premises used or proposed to be used for the clinical establishment and inspect the equipments, furniture and other accessories and enquire into the professional qualifications of the technical staff employed or to be employed and shall make any such other enquires as they consider necessary to verify the statements made in the application for registration and grant of license. All persons connected with the running of the establishment shall be bound to

supply full and correct information to the inspection team. Provided further that surprise inspections may also be conducted by the inspection teams from the UT.

- iv. The Officer and / or inspection team so constituted by the Registering Authority shall submit a report as per **Annexure - 6** within a week of the inspection to the District Registration Authority with a copy to the State Council.

## **Penalties & Appeals**

### **(30) Penalties:**

- i. In keeping with the provisions of Section 41 (1) (2) (3) and Section 42 (1) (2) (3) of the Act, whoever carries on a clinical establishment without registration or whoever willfully disobeys any direction, or obstructs any person or authority or withholds any such information or provides false information shall be liable for a monetary penalty.
- ii. Whoever carried on a clinical establishment without registration, shall, on first contravention be liable to a monetary penalty upto fifty thousand rupees, for second contribution to a monetary penalty which may extend to two lakh rupees and for any subsequent contravention to penalty which may extend to five lakh rupees.
- iii. Whoever knowingly serves in a clinical establishment which is not duly registered under this Act, shall be liable to a monetary penalty which may extend to twenty five thousand rupees.

The penalty fees collected by the District Registration Authority concerned shall be, deposited by the Authority concerned in a Nationalized bank account opened in the name of official designation of Registration Authority concerned and shall be utilized by the Council and authority for the activities connected with the implementation of the provisions of the Act and these rules as approved by the Council.

### **(31) Appeals:**

- i. In keeping with Section 36, 41 (4) (5) (6) (7) and Section 42 (4) (5) (6) (7), any person or clinical establishment, if aggrieved by the decision of the Authority under Sections 29 and 34 of the Act, may file an appeal **Annexure - 8** to the UT Council within thirty (30) days from the date of receipt of such order along with prescribed fees as indicated in **Annexure - 5**.
- ii. After receipt of the appeal, the UT Council shall fix the time and date for hearing and inform the same to the appellant and others concerned by a registered letter giving at least 15 days time for hearing of the case.
- iii. The appellant may represent by himself or authorized person or a Legal practitioner and submit the relevant documentary material if any in support of the appeal.

- iv. The UT Council shall hear all the concerned, receive the relevant oral/documentary evidence submitted by them, consider the appeal and communicate its decision preferably within 90 days from the date of filing the Appeal.
- v. If the UT Council considers that an interim order is necessary in the matter, it may pass such order, pending final disposal of the appeal. The decision of UT Council shall be final and binding.
- vi. If no appeal is filed against the decision of the Registering Authority in the prescribed period (i.e.) within 30 days from the date of receipt of the order, the orders of the Authority shall be final.
- vii. The appeal fees collected by the authorities shall be deposited by the Authority concerned in a Nationalized bank account opened in the name of the official designation of the Registration Authority concerned and shall be utilized by the Council and authority for the activities connected with the implementation of the provisions of the Act and these rules as approved by the Council.

*Sawp*  
3/9/14  
Dy. Secretary (Health)  
Daman & Diu

---

**Annexure - 1**  
**[See Rules 20 (i)]**

**Application Form for Provisional Registration of Clinical Establishments**

**1. Name of the Establishment:/Doctor**

\_\_\_\_\_

(in case of Single Practitioner: \_\_\_\_\_)

**2. Address:**

Village/Town:	Taluka:	
District:	State:	Pin code
Tel No (with STD code):	Mobile:	Fax ;
Email ID :	Website (if any):	

**3. Year of starting:** \_\_\_\_\_

**4. Location:**  Rural  Urban  Metropolitan

**5. Ownership**

Public Sector

- Central government  State government  Local government- please specify:  
 Public Sector Undertaking  Railways  Employee State Insurance Corporation (ESIC)  
 Autonomous organization  Any other (please specify):/

Private Sector

- Individual Proprietorship  Registered Partnership  Registered Company  Co-operative Society  
 Trust/Charitable registered under a Central, Provincial or State Act (please specify): \_\_\_\_\_  
 Any other (please specify): \_\_\_\_\_

**6. Name of the owner of Clinical Establishment:** \_\_\_\_\_

Educational Qualification: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Village/Town.; \_\_\_\_\_ Taluka: \_\_\_\_\_  
District: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Pin code \_\_\_\_\_  
Tel No (with STD code): \_\_\_\_\_ Mobile: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_  
Email ID \_\_\_\_\_

**7. Name of person in-charge of the Clinical Establishment:** \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_ Educational Qualification: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Village/Town: \_\_\_\_\_ Taluka: \_\_\_\_\_  
District: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Pin code \_\_\_\_\_  
Tel No (with STD code): \_\_\_\_\_ Mobile: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_  
Email ID :

**8. Systems of Medicine offered: (please tick whichever is applicable)**

- Allopathy  Ayurveda  Unani  Siddha  Homeopathy  Yoga & Naturopathy

**9. Services provided : (please tick whichever is applicable)**

- Inpatient  Outpatient  Laboratory/Imaging Centre

- Any other, please specify: \_\_\_\_\_

**a) Category of clinical Services:**

- General  Single Specialty  Multi Specialty  Super Specialty

**10. Type of Establishment : (Please tick whichever is applicable):**

**a) Inpatient :**

- Hospital  Nursing Home  Maternity Home  Primary Health Centre

- Community Health Centre  Sanatorium  Day care Centre

**b) No. of Beds: \_\_\_\_\_**

**c) Outpatient :**

- Single Practitioner  Polyclinic  Sub Centre  Physiotherapy Clinic

- Dialysis Centre  Any other, please specify: \_\_\_\_\_

**d) Laboratory :**

- Pathology  Haematology  Biochemistry  Microbiology

- Genetics  Collection  Any other, please specify: \_\_\_\_\_

**11. Whether clearance from Pollution Control Board/Authority obtained?**

- Yes  No  Applied For

**HUMAN RESOURCES**

**12. Total number of Staff (as on date of application):**

No. of permanent staff: \_\_\_\_\_ No. of temporary staff: \_\_\_\_\_

SERIES - I No. : 08
DATED : 5 <sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2014.

Please furnish the following details:-

Category of staff	Name	Qualification	Registration Number (where applicable)	Nature of service Temporary/ Permanent
Doctors				
Nursing staff				
Para-medical staff				
Pharmacists				
Support staff				
Others, please specify				

I,..... on behalf of myself and the company/society/association/body hereby declare that the statements above are correct and true to the best my knowledge and I shall abide by all the rules and declarations under the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act 2010.

I undertake that I shall intimate to the appropriate registering authority any change in the particulars given above.

Place:  
Signatory  
Date:

Signature of the Authorized

Office Seal



SERIES - I No. : 08
DATED : 5 <sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2014.

**Annexure – 2**  
**[See Rules 21]**

**ACKNOWLEDGEMENT**

**REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT**

The application in Form \_\_\_\_\_ for Grant / Renewal of Provisional / Permanent Registration of the Clinical Establishment submitted by \_\_\_\_\_ (Name and address of Owner) has been received by the District Registration Authority on \_\_\_\_\_ (date) and found to be

Complete

Or

Incomplete

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Signature and Designation of Registration Authority or authorized person in the Office of the Appropriate Authority.

SEAL

Designation of the Issuing Authority (Computer Generated)  
Place & Date: (Computer Generated)

SERIES - I No. : 08
DATED : 5 <sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2014.

**Annexure – 3**  
**[See Rules 22]**

**PROVISIONAL CERTIFICATE FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT**

*Provisional registration No:* (Computer Generated)  
*Date of issue:* (Computer Generated)  
*Valid up to:* (Computer Generated)

1. Name of the Clinical Establishment: \_\_\_\_\_
2. Address: \_\_\_\_\_
3. Owner of the Clinical Establishment: \_\_\_\_\_
4. Name of Person in Charge: \_\_\_\_\_
5. System of Medicine : \_\_\_\_\_
6. Type of Establishment: \_\_\_\_\_

Is hereby provisionally registered under the provisions of Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010 and the Rules made there under.

Designation of the Issuing Authority (Computer Generated)

Place & Date: (Computer Generated)

District Registration Authority  
Address:

Phone number in case of Grievances

SERIES - I No. : 08
DATED : 5 <sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2014.

**Annexure - 4**  
**[See Rules 23 (i)]**

**PERMANENT CERTIFICATE FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT**

Permanent registration No: (Computer Generated)  
Date of issue: (Computer Generated)  
Valid up to: (Computer Generated)

1. Name of the Clinical Establishment: \_\_\_\_\_
2. Address: \_\_\_\_\_
3. Owner of the Clinical Establishment: \_\_\_\_\_
4. Name of Person in Charge: \_\_\_\_\_
5. System of Medicine : \_\_\_\_\_
6. Type of Establishment: \_\_\_\_\_

is hereby permanently registered under the provisions of 'Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010 and the Rules made there under.

Designation of the Issuing Authority (ComputerGenerated)  
Place & Date: (Computer Generated)

**District Registration Authority**  
**Address:**

**Phone number in case of Grievances**

**Annexure - 5**  
**[See Rules 24 (iii) & 25 (i)]**

FEES TO BE CHARGED

Description	Urban		Rural	
	Provisional	Permanent	Provisional	Permanent
Out Patient Care	500	1000	250	500
In Patient Care	1500	3000	750	1500
Testing & Diagnostic	2500	5000	1250	2500

Other fees:

- \* For Renewal fee will be same as registration fee (Provisional/Permanent).
- \* For Late Application the amount would be double of the registration fee (Provisional/Permanent)
- \* For Duplicate Certificate the amount would be ₹. 1000/-.
- \* For change of ownership, management or name of establishment would be ₹.2000/-
- \* For any appeal the amount would be ₹.1000/-

If a laboratory or diagnostic centre is a part of a establishment providing Outpatient/Inpatient care no separate registration is required. However, fee as applicable above would have to be paid.

SERIES - I No. : 08
DATED : 5 <sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2014.

**Annexure - 6**  
**[See Rules 29 (iv)]**

**SUGGESTED FORMAT FOR SUBMISSION OF INSPECTION REPORT**

Number of visits made with date : \_\_\_\_\_

Names and details of members of : \_\_\_\_\_  
the inspection team

Address and contact details of : \_\_\_\_\_  
Clinical establishment visited

Process followed for inspection : \_\_\_\_\_  
(eg. Kindly outline who was met  
With, what records were examined etc.)

Salient Observations/findings : \_\_\_\_\_  
Conclusions

Specific Recommendations : \_\_\_\_\_

1) To the Clinical Establishment \_\_\_\_\_

2) To the District Registering Authority \_\_\_\_\_

\* In case of lack of consensus amongst members of the inspection team, the same may be kindly indicated.

Signature (of all members of the inspection team)

Date:

Place:

SERIES - I No. : 08
DATED : 5 <sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2014.

**Annexure - 7**  
**[See Rules 27 (i)]**

**DISPLAY OF REGISTRATION STATUS FOR FILING OBJECTIONS**

I, \_\_\_\_\_, being the authority under the Clinical Establishments Act, 2010 after considering the applications received during the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ under Sec. 24 satisfying the provisions of the Clinical Establishments Act, 2010 and the Clinical Establishments Rules, 2011 made their under, hereby publish the list of Clinical Establishments within the jurisdiction of UT of Daman & Diu:

Sr. No.	Name of Clinical Establishment with address	Ownership/ in Charge	System of medicine	Date on which application was submitted	Category and standards complied with

Objections if any, in writing to the published list may be address in duplicate to \_\_\_\_\_ (address of the authority) within 30 days, from the date of this notification, as required under Sec. 26 of the Act.

Place:  
Date:

SEAL

Signature:  
Name:

SERIES - I No. : 08
DATED : 5 <sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2014.

**Annexure - 8**  
**[See Rules 31 (i)]**

APPLICATION FOR APPEAL

To  
The UT Council,  
Directorate of Medical & Health Services,  
Daman & Diu,  
Daman.

Sir,

I, Dr. \_\_\_\_\_ of  
\_\_\_\_\_ had applied for registration/ is a valid license  
holder with registration number \_\_\_\_\_ under Clinical Establishment Act,  
2010 for my \_\_\_\_\_ located at  
\_\_\_\_\_. I was communicated  
by the District Authority as per letter No. \_\_\_\_\_  
dated \_\_\_\_\_ that either:

- i) That my application was rejected.
- ii) That my registration is cancelled.
- iii) That I am restrained from carrying on with the running of clinical establishment.
- iv) That I am charged with a penalty for an offence under the Act.
- v) Any other \_\_\_\_\_

The above decision of the district authority appears to be not valid. I request you  
to consider my application as per the justifications mentioned below:

- i) \_\_\_\_\_
- ii) \_\_\_\_\_
- iii) \_\_\_\_\_

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary. I am  
enclosing herewith a draft of ` 1000/-.

Thanking you,

Place:  
Date:  
Signature  
Name:

**Annexure - 9**  
**[See Rules 24 (iii)]**

**DUPLICATE**

**CERTIFICATE FOR CLINICAL ESTABLISHMENT**

Permanent Registration No. (Computer generated)

Date of Issue: (Computer generated)

Valid up to: (Computer generated)

1) Name of the Clinical Establishment : \_\_\_\_\_

2) Address: \_\_\_\_\_

3) Owner of the Clinical Establishment: \_\_\_\_\_

4) Name of Person in Charge: \_\_\_\_\_

5) System of Medicine: \_\_\_\_\_

6) Type of Establishment: \_\_\_\_\_

is hereby permanently registered under the provisions of "Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 and the Rules made there under.

Designation of the Issuing Authority: (Computer Generated)

Place and Date: (Computer Generated)

District Registration Authority

Address:

Phone Number in case of Grievances